



**ग्रामीण कृषि मौसम सेवा**  
भारत मौसम विज्ञान विभाग  
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान  
जोधपुर, राजस्थान



## मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 10-05-2022

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-05-10 ( अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-05-11	2022-05-12	2022-05-13	2022-05-14	2022-05-15
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	45.0	46.0	46.0	47.0	46.0
न्यूनतम तापमान(से.)	30.0	31.0	31.0	30.0	31.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	23	28	43	48	59
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	7	7	8	8	10
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	18.0	19.0	25.0	28.0	29.0
पवन दिशा (डिग्री)	278	251	217	214	217
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0

### मौसम सारांश / चेतावनी:

आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होने के साथ लू चलने की सम्भावना है। आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 45.0 से 47.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 30.0 से 31.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

### सामान्य सलाहकार:

जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है एवं आगामी रबी की फसल में जीरा लगाना चाहते हैं तो उस खेत में सरसों की फलकटी 2.5 टन व 0.5 टन सरसों की खली प्रति हेक्टर का भुरकाव करके तवीये निकाल कर एक सिंचाई तेज गर्मी के समय दें ताकि फलकटी व खल के सड़ने से जो गैस निकले उससे उखटा रोग की फंफूद अभी ही खत्म हो जाएं।

### लघु संदेश सलाहकार:

आने वाले दिनों में तापमान में वृद्धि होने के साथ लू चलने की सम्भावना है।

### फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
------	-------------------

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
कपास	किसान भाई कपास की बुवाई करें। देशी कपास की आर.जी.-8, आर.जी.-18, राज.डी.एच.-9, आर.जी.-542, एच.डी.-123। अमेरिकन कपास की बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, आर.एस.टी.-9, आर.एस.-2013, आर.एस.-810, आर.एस.-875, उन्नत किस्मों की बुवाई करें। फसल में जड़ गलन रोग के नियंत्रण के लिए ट्राइकोड्रमा हारजेनियम 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। फसल को दीमक के प्रकोप से बचाने के लिए बुवाई के समय क्यूनालफास 1.5 प्रतिशत की 25 किलो मात्रा प्रति हैक्टेयर की दर से डालें।

### बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
मिर्च	मिर्च में पर्णकुंचन या मोजेक रोग के प्रकोप से पौधों के पत्ते सिकुड़ कर मुड़ जाते हैं तथा छोटे रह जाते हैं। नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी या डाईमिथोएट 30 ई.सी. का एक मिली लीटर का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें।

### पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	उच्च तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए जानवरों को छाया में रखें और निर्जलीकरण से बचाने के लिए दिन में 3-4 बार पीने का पानी दें।
गाय	इस महीने में उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप जानवरों में निर्जलीकरण, शरीर में लवण और भूख की कमी व उत्पादन में कमी आदि की समस्या रहती है। इसलिए उच्च तापमान से जानवरों की रक्षा करना अनिवार्य है। पशुओं को नियमित रूप से नमक दे। आहार में खनिजलवण की मात्रा पर्याप्त हो ताकि हार्मोन्स का संतुलन पशुओं के शरीर में बना रहे।

### अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	उच्च तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए किसान भाई सब्जियों व बागानों में अतिरिक्त सिंचाई अवश्य दे।